



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] मई विल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 1970/पौष 10, 1891

No. 5] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 1970/PAUSA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd January, 1970

S.O. 54.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. PF.15(5)/48 dated the 11th December, 1948, namely:—

1. This Scheme may be called the Coal Mines Provident Fund (Fourth Amendment) Scheme, 1969.

2. In paragraph 25A of the Coal Mines Provident Fund Scheme (hereinafter referred to as the Scheme), in sub-paragraph (1),—

(i) after the words “after the end of the month following any month”, the following words shall be inserted, namely:—

“or quarter, as the case may be”;

(ii) in clause (ii), after the words and figures “after December, 1967”, the following words and figures shall be inserted, namely:—

“but before January, 1970.”;

(iii) after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—

“(iii) after December, 1969, for not less than 48 days if he is an underground employee and 60 days if he is a surface employee, in a quarter”.

3. In paragraph 38 of the Scheme, in sub-paragraph (1),—

(i) in clause (i), after the words and figures "but not before the 1st October, 1948", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"and also of every quarter commencing on or after the 1st January, 1970";

(ii) in clause (ii),

(a) after the words and figures "from the commencement of every month from February, 1962," the following words and figures shall be inserted, namely:—
"to December, 1969";

(b) the word "onwards" shall be omitted.

4. In paragraph 38A of the Scheme after the words "Every employer shall", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"till the 31st December, 1969."

[No. 2(47)/69-PF.I]

S.O. 55.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 657, dated the 12th March, 1956, namely:—

1. This Scheme may be called the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Fourth Amendment) Scheme, 1969.

2. In paragraph 6A of the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme (hereinafter referred to as the Scheme), in sub-paragraph (1),—

(i) after the words, "after the end of the month following any month", the following words shall be inserted, namely:—

"or quarter, as the case may be,";

(ii) in clause (ii), after the words and figures "after December, 1967," the following words and figures shall be inserted, namely:—

"but before January, 1970,";

(iii) after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—

"(iii) after December, 1969, for not less than 48 days if he is an underground employee and 60 days if he is a surface employee, in a quarter."

3. In paragraph 17 of the Scheme, in sub-paragraph (1),—

(i) in clause (i), after the words and figures, "but not before the 1st October, 1965," the following words and figures shall be inserted, namely:—

'and also of every quarter commencing on or after the 1st January, 1970';

(ii) in clause (ii),

.a) after the words and figures "from the commencement of every month from February, 1963" the following words and figures shall be inserted, namely:—
"to December, 1969";

(b) the word "onwards" shall be omitted.

4. In paragraph 17A of the Scheme after the words "Every employer shall", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"till the 31st December, 1969".

[No. 2/47/69-PF.I/II.]

S.O. 56.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 32, dated the 11th February, 1958, namely:—

1. This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Fourth Amendment) Scheme, 1969.

2. In Paragraph 6A of the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme (hereinafter referred to as the Scheme), in sub-paragraph (1),—

(i) after the words "after the end of the month following the month," the following words shall be inserted, namely:—

"or quarter, as the case may be,";

(ii) in clause (ii), after the words and figures "after December, 1967," the following words and figures shall be inserted, namely:—

"but before January, 1970,";

(iii) after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—

"(iii) after December, 1968, for not less than 48 days if he is an underground employee and 60 days if he is a surface employee, in a quarter".

3. In paragraph 16 of the Scheme, in sub-paragraph (1),

(i) in clause (i), after the words and figures "but not before 1st October, 1955", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"and also of every quarter commencing on or after the 1st January, 1970".

(ii) in clause (ii),

(a) after the words and figures "from the commencement of every month from February, 1963" the following words and figures shall be inserted, namely:—

"to December, 1969";

(b) the word "onwards" shall be omitted.

4. In paragraph 16A of the Scheme after the words "Every employer shall", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"Till the 31st December, 1969."

[No. 2/47/69-PF.I(iii).]

S.O. 57.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, 1966, published with the notification of the Government of India in the Department of Labour and Employment No. G.S.R. 1771, dated the 14th November, 1966, namely:—

1. This Scheme may be called the Neyveli Coal Mines Provident Fund (Fifth Amendment) Scheme, 1969.

2. In paragraph 6 of the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme (hereinafter referred to as the Scheme), in sub-paragraph (1),—

(i) after the words "after the end of the month following any month," the following words shall be inserted, namely:—

"or quarter, as the case may be,";

(ii) in clause (ii), after the words and figures "after December 1967", the following words and figures shall be inserted, namely:—

"but before January, 1970,";

(iii) after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—

"(iii) after December, 1969, for not less than 48 days if he is an underground employee and 60 days if he is a surface employee, in a quarter".

3. In paragraph 21 of the Scheme,—

(i) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) Every employer shall send by registered post or through a messenger to the Commissioner, or such other officer subordinate to him as may be authorised by him in this behalf, a return in duplicate—

(i) in Form 'H' (Revised) annexed hereto, within fifteen days from the end of every month between January, 1967 and December, 1969,;

(ii) in Form 'H' annexed hereto within six weeks from the end of each quarter commencing on or after the first January, 1970,

intimating the particulars of employees who qualify for the membership of the Fund under paragraph 6 during the preceding month or quarter, as the case may be.";

(ii) in sub-paragraph (3) after the words, letter and brackets Form "H (Revised)" the following words and letter shall be inserted, namely:—

"or Form 'H' as the case may be"

4. In paragraph 22 of the Scheme after the words "Every employer shall," the following words and figures shall be inserted, namely:—

"till the 31st December, 1969".

5. In the Scheme, after Form 'C', the following form shall be inserted, namely:—

FORM 'H'

Coal Mines Provident Fund

Return of persons employed who qualified for membership of the Coal Mines Provident Fund during the quarter..... to.....

(To be sent to the Commissioner in duplicate with Form 'A')

Name and address of coal mine:.....

Regd. No. of coal mine:.....

Serial No.	Name of employee (in block capitals)	Father's name (or husband's name in the case of married woman)	Category of employees' work	Sex	Account No. (not to be filled by employer.)	Date on which the person was employed	Remarks
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------	-----	---	---------------------------------------	---------

Signature of Manager or other authorised official of the coal mine.

Date.....

[No. 2/47/69-PF.1(iv).]

S. T. MERANI, Jt. Secy.

अन्न रोजगार और पुनर्वास विभाग

(अन्न और रोजगार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1970

सं० का० नि० 54.—कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्रालय की अधिसूचना सं० पी एफ 15(5)/48 तारीख 11 दिसम्बर 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे संशोधन करन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. यह स्कीम कोयला खान भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1969 कही जा सकेगी ।

2. कोयलाखान भविष्य निधि स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के पैरा 25 के उपपैरा (1) में,—

(i) “मे अगले मास की समाप्ति के पश्चात् शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए, अर्थात्:—

“स, यथा स्थिति, अगले मास या तिमाही की समाप्ति के पश्चात्”

(ii) खण्ड (2) में, “दिसम्बर, 1967 के पश्चात्” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:—

(iii) “किन्तु जनवरी, 1970 के पूर्व”;

खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

(3) दिसम्बर 1969 पश्चात्, यदि वह सतह के नीचे के काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में कम से कम 48 दिन और यदि वह सतह के ऊपर काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में 60 दिन”

3. स्कीम के पैरा 38 के उप पैरा (1) में ;

(1) खंड (1) में, “किन्तु ; 1 अक्टूबर, 1948 के पूर्व नहीं शब्दों और अंकों पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“और 1 जनवरी, 1970 को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही की भी”

(2) खण्ड (2) में, (क) “फरवरी 1962” शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किए जायेंगे, :—

“दिसम्बर, 1969 तक”

(ख) “और आगे” शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ।

स्कीम के पैरा 38 में एक संश्लिष्ट हाजरी रजिस्टर शब्दों के पश्चात् निम्न-लिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“31 दिसम्बर, 1969 तक”

[सं० 2(47)/69-पी० एफ० 1]

सा० का० नि० 55.—कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 657 तारीख 12 मार्च, 1956 के साथ प्रकाशित आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. यह स्कीम आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1969 कही जा सकेगी ।

2. आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के पैरा 6 के उप पैरा (1) में,

(i) से अगले मास की समाप्ति के पश्चात् शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रति स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“मे, यथाम्थिति, अगले मास या तिमाही की समाप्ति के पश्चात्”

(ii) खंड (ii) में “दिसम्बर, 1967 के पश्चात्” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“किन्तु जनवरी, 1970 से पूर्व”

(iii) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(iii) दिसम्बर 1969 के पश्चात् यदि वह सतह के नीचे काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में कम से कम 48 दिन और यदि वह सतह के ऊपर काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में 60 दिन ।

3. स्कीम के पैरा 17 के उपपैरा (1) में—

(i) खंड (i) में “किन्तु 1 अक्तूबर 1955 के पूर्व नहीं” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

और 1 जनवरी 1970 को या उस के पश्चात् आरम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही की भी ” ;

(ii) खंड (ii) में,

(क) “फरवरी 1963, से” शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“दिसम्बर 1969 तक” ;

(ख) “और आगे” शब्द सुप्त कर दिए जाएंगे ।

4. स्कीम के पैरा 17क में “एक संक्षिप्त हाजरी रजिस्टर” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“31 दिसम्बर 1969 तक”

[सं० 2/47/69-पी०एफ० 1/11]

सा० का० नि० 56.—कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 32 तारीख 11 फरवरी 1958 के साथ प्रकाशित राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. यह स्कीम राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम 1969 कही जा सकेगी ।

2. राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम (जिस इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के पैरा 6क के उपपैरा (1) में,—

(i) “से अगले मास की समाप्ति के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—“मे यथाम्थिति, अगले मास या तिमाही के पश्चात्”

(ii) खण्ड (ii) में "दिसम्बर, 1967 के पश्चात्" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—
"किन्तु जनवरी, 1970 के पूर्व"

(iii) खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) दिसम्बर, 1968 के पश्चात्, यदि वह सतह के नीचे काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में कम से कम 48 दिन और यदि वह सतह के ऊपर काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में 60 दिन"

3. स्कीम के पैरा 16 के उपपैरा (1) में,

(i) खंड (i) में, "किन्तु 1 अक्टूबर, 1955 के पूर्व नहीं" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे अर्थात्:—
"और 1 जनवरी, 1970 को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही की भी"

(ii) खण्ड (ii) में,

(क) "फरवरी 1963 से" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"दिसम्बर, 1969 तक"

(ख) "और आगे" शब्द लुप्त कर दिया जायेगा।

4. स्कीम के पैरा 16 में "एक संक्षिप्त हाजरी रजिस्टर" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"31 दिसम्बर, 1969 तक"

[सं० 2/47/69-पी०एफ० I (III)]

[सा० का० नि० 57.—कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम और रोजगार विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1771 तारीख 14 नवम्बर, 1966 के साथ प्रकाशित नएवेली कोयला-खान भविष्य निधि स्कीम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. यह स्कीम नएवेली कोयला खान भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1969 कही जा सकेगी।

2. नएवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के पैरा 6 के उपपैरा (1) में,—

(i) "से अगले मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:—

"से, यथास्थिति, अगले मास या तिमाही के पश्चात्"

(ii) खण्ड (ii), “दिसम्बर, 1967 के पश्चात्” शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“किन्तु जनवरी, 1970 के पूर्व”

(iii) खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(iii) दिसम्बर 1969 के पश्चात्, यदि वह सप्ताह के ऊपर काम करने वाला कर्मचारी है तो एक तिमाही में कम से कम 48 दिन और यदि वह सप्ताह के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति है तो एक तिमाही में 60 दिन”

3. स्कीम के पैरा 21 में,—

(i) उपपैरा (1) के लिए, निम्नलिखित उपपरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) प्रत्येक नियोजक, आयुक्त या उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा हस्त निमित्त प्राधिकृत किया गया है, विवरणी की दो प्रतियां रजिस्ट्रीकृत डाक या संदेशवाहक द्वारा—

(i) इस से उपाबद्ध प्ररूप ‘ज’ (पुनरीक्षित) में पहली जनवरी, 1967 से दिसम्बर 1969 तक प्रत्येक मास के अन्त से 15 दिन के भीतर;

(ii) इससे उपाबद्ध प्ररूप ‘ज’ में पहली जनवरी, 1970 को या उसके बाद आरम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही के अन्त से 6 सप्ताह के भीतर;

उन कर्मचारियों को बिशिष्टियां प्रज्ञापित करते हुए जो यथास्थिति पूर्ववर्ती मास या तिमाही के दौरान पैरा 6 के अधीन निधि की सदस्यता के लिए अर्हित हैं ;

भेजेगा” ;

(ii) उपपैरा (3) में, “प्ररूप ज (पुनरीक्षित)” शब्दों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“यथास्थिति प्ररूप ज (पुनरीक्षित) या प्ररूप ‘ज’ ”

4. स्कीम के पैरा 22 में “एक संक्षिप्त हाजरी रजिस्टर” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“31 दिसम्बर, 1969 तक । ”

5. स्कीम में, प्ररूप "ग" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा
अर्थात् :—

प्ररूप "ज"

कोयला खान भविष्य निधि

उन नियोजित व्यक्तियों के विवरणों जो से
..... तिमाही के दौरान सदस्यता के लिए आहित थे।

(आयुक्त को प्ररूप "क" के साथ दो प्रतियों में भेजी जाएगी)

कोयला खान का नाम और पता

कोयला खान का रजिस्ट्रीकृत संख्यांक

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम (स्पष्ट भक्षरों में)	पिता का नाम (विवाहिता स्त्रियों की दशा में पति का नाम)	कर्मचारियों के काम का प्रवर्ग	लिंग	लेखा संख्यांक (नियोजक द्वारा नहीं भरा जाना है)	वह तारीख जिसको व्यक्ति नियोजित किया गया।	टिप्पणी
-------------	---	---	-------------------------------	------	---	--	---------

कोयला खान के प्रबन्धक या अन्य प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

[सं० 2/47/69—पी०एफ० 1 (iv)]

एस० टी० मैरानी, सह सचिव।

